



# बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (बिहार सरकार का उपक्रम) (निबंधित कार्यालय: विद्युत भवन, बेली रोड़, पटना)

## सार्वजनिक सूचना जन प्रतिक्रिया के संबंध में अनुरोध

- बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, (बी०एस०पी०टी०सी०एल०), ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी सभी हितधारकों व आम जन के सूचित करता है कि उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सत्यापित याचिका (Truing up), वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक समीक्षा याचिका तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दायर ए.आर.आर. (ARR), एवं वित्तीय वर्ष 26-27 हेतु ट्रांसमिशन टैरिफ के लिए माननीय बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष बिहार विद्युत विनियामक आयोग (मल्टी ईयर ट्रांसमिशन टैरिफ एवं एस०एल०डी०सी० चार्ज) विनियमन 2021 एवं 2024 के अंतर्गत याचिका दायर की है। माननीय आयोग ने याचिका को केस संख्या-52/2025 की तहत अभिलेख पर दर्ज कर लिया है।
- टैरिफ याचिक दिनांक-15/11/2025 का सक्षिप्त रूप निम्न प्रकार से है:-

### टैरिफ याचिका का सारांश

| क्रम सं० | खर्च की विवरणी                            | सत्यापित याचिका वित्तीय वर्ष 2024-25  |                                        | वार्षिक समीक्षा याचिका वित्तीय वर्ष 2025-26 |                                                           | (रु० करोड़ में)<br>ए० आर० आर० वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित राशि |                                        |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                                           | टैरिफ आदेश दिनांक- 03.24 में अनुमोदित | वित्तीय वर्ष 2024-25 के टू-अप में दावा | टैरिफ आदेश दिनांक- 28.03.25 में अनुमोदित    | वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक समीक्षा का संशोधित अनुमान | मल्टी ईयर ट्रांसमिशन टैरिफ आदेश दिनांक- 28.03.25 में अनुमोदित             | वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित |
| 1        | संचरण प्रणाली उपलब्धता कारक               | 98.50%                                | 99.35%                                 | 98.00%                                      | -                                                         | 98.00%                                                                    | -                                      |
| 2        | अंतरराज्यीय संचरण हानि                    | 3.00%                                 | 2.61%                                  | 2.50%                                       | 3.22%                                                     | 2.50%                                                                     | 2.50%                                  |
| 3        | पूँजीगत व्यय                              | 645.17                                | 990.22                                 | 1682.19                                     | 2196.98                                                   | 1691.75                                                                   | 2146.94                                |
| 4        | पूँजीकरण                                  | 1696.10                               | 1729.79                                | 1109.60                                     | 1495.91                                                   | 994.82                                                                    | 2030.18                                |
| 5        | कर्मों लागत                               | 262.83                                | 339.21                                 | 311.07                                      | 326.17                                                    | 328.05                                                                    | 342.07                                 |
| 6        | मरम्मती एवं अनुरक्षण का लागत              | 93.87                                 | 83.92                                  | 64.16                                       | 67.88                                                     | 69.66                                                                     | 75.30                                  |
| 7        | प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय                | 52.46                                 | 53.88                                  | 64.02                                       | 60.56                                                     | 71.81                                                                     | 65.54                                  |
| 8        | होलिडिंग कंपनी का खर्च                    | 16.08                                 | 18.35                                  | 24.50                                       | 18.35                                                     | 24.50                                                                     | 18.35                                  |
| 9        | मूल्यहास                                  | 613.54                                | 498.73                                 | 437.74                                      | 569.53                                                    | 477.39                                                                    | 650.75                                 |
| 10       | ऋण पूँजी पर ब्याज एवं वित्तीय शुल्क       | 523.83                                | 505.80                                 | 477.19                                      | 568.32                                                    | 495.25                                                                    | 638.13                                 |
| 11       | इक्विटी पर लाभ                            | 290.01                                | 271.54                                 | 492.25                                      | 584.88                                                    | 528.41                                                                    | 646.37                                 |
| 12       | कार्यशील पूँजी पर ब्याज                   | 29.19                                 | 28.66                                  | 20.07                                       | 23.23                                                     | 21.39                                                                     | 25.71                                  |
| 13       | ट्रांसमिशन उपलब्धता के लिए प्रोत्साहन     | -                                     | 14.14                                  | -                                           | -                                                         | -                                                                         | -                                      |
| 14       | ओ० एण्ड एम० खर्चों पर हानि/लाभ का बंटवारा | -                                     | (1.59)                                 | -                                           | -                                                         | -                                                                         | -                                      |

|    |                                                                     |                |                 |                |                |                |                |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15 | कार्यशील पूंजी पर ब्याज खर्चों पर हानि/लाभ का बंटवारा               | -              | (14.33)         | -              | -              | -              | -              |
| 16 | ट्रांसमिशन उपलब्धता के लिए प्रोत्साहन खर्चों पर हानि/लाभ का बंटवारा | -              | (7.07)          | -              | -              | -              | -              |
| 17 | घटाकर :- गैर टैरिफ आय                                               | (79.25)        | (121.85)        | (114.35)       | (127.94)       | (120.07)       | (134.34)       |
| 18 | घटाकर :- अन्य व्यापार से आय (OPGW) केवल                             | (1.03)         | (5.83)          | (4.72)         | (5.83)         | (4.72)         | (5.83)         |
| 19 | कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता (5 to 18)                               | <b>1801.54</b> | <b>1663.55</b>  | <b>1771.93</b> | <b>2085.16</b> | <b>1891.67</b> | <b>2322.06</b> |
| 20 | जोड़कर:- पहले के वर्षों का राजस्व अंतर/अधिशेष                       | (80.70)        | (80.70)         | (209.53)       | (209.53)       | -              | (154.91)<br>*  |
| 21 | नेट राजस्व की आवश्यकता (19 + 20)                                    | <b>1720.84</b> | <b>1582.85</b>  | <b>1562.40</b> | <b>1875.63</b> | <b>1891.67</b> | <b>2167.15</b> |
| 22 | ट्रांसमिशन शुल्क से राजस्व                                          | 1720.84        | 1720.84         | 1562.40        | 1562.40        | -              | -              |
| 23 | नेट राजस्व अंतर/अधिशेष                                              | -              | <b>(137.99)</b> | -              | <b>313.23</b>  | -              | -              |

\*[वित्त वर्ष 2024-25 के सही-सही आकलन के बाद राजस्व अधिशेष (137.99) करोड़ रुपये, साथ ही 28.37 करोड़ रुपये की वहन लागत और वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ट्रांसमिशन उपलब्धता के कारण प्रोत्साहन का प्रभाव 11.46 करोड़ रुपये की वहन लागत/ब्याज के साथ (माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) द्वारा 10 अक्टूबर 2025 को अपील संख्या 59/2022 में प्रकाशित निर्णय के अनुसार)]

- कण्डिका संख्या 1 में वर्णित टैरिफ याचिका की प्रतियाँ मुख्य अभियंता (एस०टी०यू०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, चतुर्थ तल, विद्युत भवन-1, नेहरू मार्ग, पटना-800021 के कार्यालय में दिनांक-28/11/2025 से रूपया 500/- के भुगतान पर उपलब्ध रहेगी। टैरिफ याचिका बेवसाइट [www.bsptcl.in](http://www.bsptcl.in) /[www.berc.co.in](http://www.berc.co.in) पर भी उपलब्ध है एवं वहाँ से तलभारित की जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति टैरिफ याचिका का निःशुल्क निरीक्षण/अवलोकन कार्यालय अवधि के दौरान उपरोक्त बी०एस०पी०टी०सी०एल० के कार्यालय में कर सकते हैं।
- उपरोक्त टैरिफ याचिका पर आपत्ति/सुझाव, यदि कोई हो तो सहायक दस्तावेज के साथ सचिव, बिहार विद्युत विनियामक आयोग, भूतल, विद्युत भवन-2, बेली रोड, पटना-800021 को व्यक्तिगत अथवा निबंधित डाक से दिनांक-29/12/2025 तक या उसके पहले समर्पित किया जा सकता है। उपरोक्त आपत्ति/सुझाव की एक प्रति मुख्य अभियंता (एस०टी०यू०), बी०एस०पी०टी०सी०एल०, विद्युत भवन-1, नेहरू मार्ग, पटना-800021 को भी निश्चित तौर पर उपलब्ध कारायी जाए तथा उक्त सेवा का साक्ष्य सचिव, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष की जाने वाली दाखिल याचिका के साथ संलग्न करें।
- उपरोक्त आपत्ति/सुझाव आपत्तिकर्ताओं के पूरा नाम तथा डाक पता के साथ छः प्रतियों में समर्पित की जायेगी। अगर, किसी संगठन अथवा उपभोक्ताओं की श्रेणी द्वारा आपत्ति दर्ज करायी जा रही है तो उक्त तथ्य का उल्लेख आपत्ति/सुझाव पर किया जाना चाहिए।
- बिहार विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा दिनांक-06/01/2026 को 11:30 बजे पूर्वाह्न अपने कोर्ट रूम, पटना में जन सुनवाई आयोजित की जायगी।

स्थान : पटना

तिथि :- 02/12/2025

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लिए

*पुनर्विचार*  
02/12/25

मुख्य अभियंता (एस०टी०यू०)  
विद्युत भवन-1, नेहरू मार्ग, पटना।